

प्रेस नोट जनपद-रामपुर दिनांक 19-06-2022

थाना खजुरिया:- दहेज हत्या में 03 अभि0 गिरफ्तार-

नरेन्द्र पाल पुत्र वीरेन्द्र, वीरेन्द्र पुत्र सालिकराम तथा श्रीमती लीलावती पत्नी वीरेन्द्र निवासीगण ग्राम पिपलिया त्रिजयनगर थाना खजुरिया, रामपुर द्वारा नरेन्द्र पाल की पत्नी से दहेज की मांग करने, मांग पूरी न होने पर उसकी हत्या कर देने के सम्बन्ध में दिनांक 19-06-2022 को थाना खजुरिया पर मु0अ0सं0-68/2022 धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम पंजीकृत हुआ। इसी क्रम में उक्त अभियोग से सम्बन्धित तीनों अभियुक्तगण नरेन्द्र पाल, वीरेन्द्र तथा श्रीमती लीलावती उपरोक्त को थाना खजुरिया पुलिस द्वारा उनके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।

थाना पटवाई:- वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 19-06-2022 को थाना पटवाई, रामपुर पुलिस द्वारा मनीष उर्फ छोटू पुत्र पप्पू निवासी ग्राम जिवाई कदीम थाना पटवाई, रामपुर को उसके घर से गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 18-06-2022 को थाना पटवाई पर पंजीकृत मु0अ0सं0-113/2022 धारा 376डी,506,452,354क(1)(ii) भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहा था।

थाना सैफनी:-धारदार हथियार व लाठी डण्डों से मारपीट करने व जान से मारने की नियत से फायर करने में वांछित चल रहा अभियुक्त गिरफ्तार-

गौरव जोशी पुत्र सूरजपाल जोशी निवासी कस्बा व थाना सैफनी जनपद रामपुर आदि द्वारा वादी श्री गौरव जोशी पुत्र श्री अमर सिंह जोशी निवासी कस्बा व थाना सैफनी जनपद रामपुर के साथ धारदार हथियार व लाठी डण्डों से मारपीट करते समय बचाने आये वादी के भाई दीपक जोशी को जान से मारने की नियत से फायर करने के सम्बन्ध में दिनांक 18-06-2022 को थाना सैफनी, रामपुर पर मु0अ0सं0-77/2022 धारा 352,307,323,504,506 भादवि पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 19-06-2022 को थाना सैफनी पुलिस द्वारा उक्त अभियोग में वांछित चल रहे अभियुक्त गौरव जोशी पुत्र सूरजपाल जोशी निवासी कस्बा व थाना सैफनी जनपद रामपुर को 01 अद् नाजायज तमन्चा 315 बोर मय नाल में फंसे हुए एक खोखा कारतूस के साथ भूडा गेट चौराहा कस्बा सैफनी से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना सैफनी पर मु0अ0सं0-79/2022 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 01- उ0नि0 श्री हारुन खान,
- 02- का0 1785 भीष्म यादव,
- 03- का0 1321 प्रदीप कुमार।

थाना शाहबाद:- एक अद् नाजायज तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 19-06-2022 को थाना शाहबाद, रामपुर पुलिस द्वारा शेखर पुत्र नरेश चन्द शर्मा निवासी ग्राम गलपुरा थाना शाहबाद, रामपुर को 01 अद् नाजायज तमन्चा 12 बोर मय 02 कारतूस जिन्दा 12 बोर के साथ पी.एन.वी. बैंक के पीछे, ब्रिजली घर का खण्डहर कस्बा शाहबाद से गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना शाहबाद पर मु0अ0सं0-198/22 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खजुरिया:- वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

दिनांक 19-06-2022 को थाना खजुरिया, रामपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त महेन्द्र पुत्र शिवचरण निवासी बलखेडा थाना खजुरिया, रामपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही की गयी।